

प्रेस नोट दिनांक 23-01-2023

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के अवसर पर यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता हेतु मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज दिनांक 23.01.2023 को जनपद सिद्धार्थनगर में परिवहन विभाग व यातायात विभाग के संयुक्त प्रयास के तहत यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता हेतु हाइडिल तिराहा से पेट्रोल पम्प तिराहा तक मानव श्रृंखला निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस अवसर पर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द द्वारा यातायात नियमों (जैसे- दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट लगाने व तेज गति से वाहन ना चलाने आदि) के प्रति जन जागरूकता हेतु मानव श्रृंखला निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम में सम्मिलित एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के बच्चों के साथ ही विभिन्न विद्यालयों के छात्रों-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलायी गयी तथा मानव श्रृंखला का निर्माण कर आम जन मानस को जागरूक किया गया । इस दौरान जनपद के अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण व विद्यालय के शिक्षकगण/छात्र-छात्राएं आदि मौजूद रहे ।

प्रेस नोट दिनांक 23.01.2023 थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2023 को वाद सं0 36/2019 धारा 325,323,504,506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारंटी 1. छेदी पुत्र बाबूराम 2. शिवप्रसाद पुत्र रामजुबेर निवासीगण चुलईडीह भानपुररानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण

01. छेदी पुत्र बाबूराम निवासी चुलईडीह भानपुररानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर
02. शिवप्रसाद पुत्र रामजुबेर निवासी चुलईडीह भानपुररानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01- गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. का0 बसन्त साहनी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा पब्लिक अप्रूवल रेटिंग के तहत थानावार कराए गए वोटिंग में सिद्धार्थनगर पुलिस को 32021 लोगों द्वारा दिया गया अपना फीडबैक। सर्वाधिक अंक प्राप्त करके थाना शिवनगर डिडई प्रथम स्थान, थाना खेसरहा दूसरे स्थान व थाना चिल्हिया तृतीय स्थान पर रहे।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार द्वारा थानावार कराये गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग/सर्वेक्षण के अन्तर्गत अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के सफल पर्यवेक्षण में जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों के पुलिस की कार्य प्रणाली ट्विटर, डॉयरेक्ट पोल, पासपोर्ट/चरित्र सत्यापन, आईजीआरएस0 एवं जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत अभियोगों (प्रथम सूचना रिपोर्ट/एनसीआर) के सम्बन्ध में माह दिसम्बर, 2022 की कार्यप्रणाली की वोटिंग में जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों को डायरेक्ट पोल पर 13293, ट्विटर पोल पर 16291, वादियों द्वारा पंजीकृत कराए गए एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 पर 260, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाणपत्र में 1842 व आई0जी0आर0एस0 में 335, व्यक्ति कुल 32021 व्यक्तियों द्वारा अपना-अपना फीड बैक दिया गया। जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों के कार्यों का थानावार मूल्यांकन कराया गया, जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करके थाना शिवनगर डिडई प्रथम स्थान, थाना खेसरहा दूसरे स्थान व थाना चिल्हिया तृतीय स्थान पर रहे, इसी प्रकार क्रमशः 04. थाना ढेबरुआ, 05. थाना शोहरतगढ़, 06. थाना त्रिलोकपुर, 07. थाना बांसी, 08. थाना इटवा, 09. थाना डुमरियागंज, 10. थाना सिद्धार्थनगर, 11. थाना पथरा बाजार, 12. थाना जोगिया उदयपुर, 13. थाना कपिलवस्तु, 14. थाना मोहाना, 15. थाना भवानीगंज, 16. थाना उसका बाजार, 17. थाना मिश्रौलिया, 18. थाना लोटन, 19. थाना कठेला समय माता, 20. थाना महिला थाना, 21. थाना गोल्हौरा स्थान प्राप्त किये।

प्रेस नोट दिनांक 23-01-2023

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एससी/एसटी एक्ट के 01 आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व ₹ 18,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 23-01-2023 को मु.अ.सं. 489/2010 धारा 323,324,504,506 भा0द0वि0 व 3(1)(x) SC/ST Act थाना भवानीगंज से सम्बन्धित आरोपी प्रमोद चौधरी उर्फ रतन वर्मा को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त प्रमोद चौधरी उर्फ रतन वर्मा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तेनुहार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 18,000/- के अर्थदण्ड से माननीय न्यायाधीश श्री हिमांशु दयाल श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश SC/ST Act सिद्धार्थनगर द्वारा दण्डित किया गया। जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी अजय बहादुर पाल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मु0का0 उपेन्द्र नाथ धर दूबे थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 23.01.2023 जिला सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने व मादक पदार्थों की बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 23-01-2023 को सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान जमुवार पुल के पास अभियुक्त रमेश लोधी पुत्र सहदेव निवासी लखनापार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को 1.230 किग्रा गांजा व ब्रिकी के 120 रूपये नकद के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व थाना सिद्धार्थनगर पर मु0अ0सं0 15/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण - आज दिनांक 23.01.2023 को संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु एवं वाहन चेकिंग के दौरान जमुवारपुल के आगे पुरानी नौगढ़ मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति रमेश लोधी पुत्र सहदेव निवासी लखनापार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को चेक किया तो उसके पास के 1.230 किग्रा नाजायज गांजा व ब्रिकी के 120 रूपये नकद बरामद हुआ तथा बरामद गांजा के सम्बन्ध में पूछने पर रमेश लोधी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह गांजा मैं अमरूदमन्डी ट्रांसपोर्ट नगर राजघाट गोरखपुर से खरीदकर लाता हूँ और इसे ककरही पुल जोगिया व शहर में घूम घूम कर बेचता हूँ और आज किसी नेपाली आदमी को देने बार्डर की तरफ जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रमेश लोधी पुत्र सहदेव निवासी लखनापार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

01.मु0अ0सं0 202/2022 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

02.मु0अ0सं0 15/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना व जिला सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

01- 1.230 किग्रा गांजा

02- 120/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र प्रभारी चौकी नौगढ़ थाना व जिला सिद्धार्थनगर।

02. उ0नि0 रतीश चंचल थाना व जिला सिद्धार्थनगर।

03. हे0का0 शैलेन्द्र यादव थाना व जिला सिद्धार्थनगर।

04. का0 प्रभाकर यादव थाना व जिला सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 23-01-2023 थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर

थाना शिवनगर डिडई पुलिस द्वारा चोरी के एक पम्पिंगसेट के साथ 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में राजेश कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष शिवनगर डिडई के नेतृत्व में आज दिनांक 23-01-2023 को शिवनगर डिडई पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान करही पेट्रोलपम्प के पास से वाहन संख्या UP51BT2973 टेम्पो लोडर पर थाना रुधौली क्षेत्र से किसान के खेत से चुराये गये पम्पिंगसेट के साथ 02 अभियुक्त अजय उर्फ लवकुश पांडे पुत्र श्रवण पांडे निवासी मुहवार थाना रुधौली जनपद बस्ती व अखिलेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय अशोक तिवारी निवासी सहीनवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना शिवनगर डिडई पर मु0अ0सं0 08/23 धारा 41,411,414 भादवि व 207 एमवी एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-अजय और लव कुश पांडे पुत्र श्रवण पांडे सा0 मुहवार थाना रुधौली जनपद बस्ती ।

02- अखिलेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय अशोक तिवारी निवासी सहीनवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. राजेश कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. उ0नि0 धमेंद्र प्रजापति थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

03- मुख्य आरक्षी उपेंद्र प्रजापति, थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

04- आरक्षी सुशील कुमार, थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

05- आरक्षी जितेंद्र राजभर, थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

06- आरक्षी मनीष शर्मा, थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

07- आरक्षी चंद्रमा कुमार, थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट:दिनांक 23.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 23.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा,आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चरुपा किया गया । प्रभारी यातायात अमरेश कुमार एवं ए. आर.टी.ओ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ गहन चेकिंग किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 26 वाहनों से 27500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट

बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट- दिनांक 23.01.2023 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा चोरी में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में सूर्य प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23-01-2023 को थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 07/2022 धारा 379,411 भादवि मे वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- सलमान पुत्र सुलेमान निवसी अरनी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 शिवदास गौतम थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।

02. उ0नि0 अजय सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।

03. आरक्षी अरविंद कुमार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।